



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1934 (श०)
(सं० पटना 612) पटना, बुधवार, 14 नवम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

9 नवम्बर 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-25/2012/9818—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पूर्णियाँ के निर्वाचन के लिए श्री मनोज कुमार रजक, वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पूर्णियाँ नियुक्त किया जाता है।

3. वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पूर्णियाँ उक्त सहकारी बैंक के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पूर्णियाँ जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पूर्णियाँ के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त सहकारी बैंक का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 9571 दिनांक 27.09.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 612-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>